

**BSHF-101**

**स्नातक उपाधि कार्यक्रम  
(बी.डी.पी.)**

**सत्रीय कार्य  
जुलाई 2018 और जनवरी 2019 सत्रों के लिए**

**पाठ्यक्रम कोड : बी.एस.एच.एफ-101  
पाठ्यक्रम शीर्षक : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम**



**सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068**

**बी.एस.एच.एफ-101 : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम**  
**सत्रीय कार्य**  
**2018-2019**

कार्यक्रम कोड: बी.डी.पी.  
पाठ्यक्रम कोड: बी.एस.एच.एफ-101

प्रिय छात्र/छात्राओ,

स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.डी.पी.) की कार्यक्रम-दर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको इस आधार पाठ्यक्रम में एक सत्रीय कार्य करना होगा।

सत्रीय कार्य में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व कार्यक्रम दर्शिका में उल्लिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।

**प्रस्तुतीकरण:** हल किए गए प्रश्नों को निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार भेजें:

सत्रीय कार्य संख्या	जमा करने की तिथि	कहाँ जमा कराएँ
सत्रीय कार्य-1 (टी.एम.ए.) (जुलाई 2018 सत्र के विद्यार्थियों के लिए)	31 मार्च 2019	अपने निर्दिष्ट अध्ययन केंद्र के संचालक को
सत्रीय कार्य-1 (टी.एम.ए.) (जनवरी 2019 सत्र के विद्यार्थियों के लिए)	30 सितंबर 2019	अपने निर्दिष्ट अध्ययन केंद्र के संचालक को

**सत्रीय कार्य करने से पहले कुछ बातें**

सत्रीय कार्य करने से पहले यह ध्यान रखें कि सामाजिक विज्ञानों में किसी भी तरह के लेखन के लिए चार सोपान आवश्यक हैं। ये हैं – (क) योजना, (ख) वस्तु चयन, (ग) प्रस्तुतीकरण; और (घ) व्याख्या।

**(क) योजना :** इस पर विचार कीजिए कि आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है और उत्तर में क्या लिखना है। इकाइयों का ठीक तरह से अध्ययन कीजिए। और यदि आपको अतिरिक्त सामग्री की जरूरत है उसे पुस्तकालय में ढूँढने की कोशिश कीजिए।

यह देखें कि प्रश्न का उत्तर (i) 500 शब्दों में देना है, (ii) 250 शब्दों में देना है; या सिर्फ (iii) 100 शब्दों में। (i) और (ii) के लिए विवरणों के साथ व्याख्या भी करनी होगी। तीसरे प्रकार के प्रश्न के उत्तर में संगत विवरणों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए।

**(ख) वस्तु चयन :** प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सामग्री में से सही तथ्यों और महत्वपूर्ण विवरणों का चयन करना होगा। इसके लिए आप :

(i) अपनी इकाइयों से नोट्स लें

(ii) तथ्यों को ध्यान से देखें। उत्तर के लिए अनावश्यक विवरण निकाल दें; और

(iii) उत्तर का पहला खाका लिख लें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको उत्तर में कौन-सी सूचनाएँ/विवरण प्रस्तुत करने हैं और कौन-से छोड़ने हैं। इससे आपको अपनी योजना को व्यावहारिक रूप देने में भी मदद मिलेगी।

**(ग) प्रस्तुतीकरण :** अब आप अपने उत्तर का दूसरा खाका तैयार करें। इससे आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकेंगे। आप यह भी जान सकेंगे कि दी गई शब्द-सीमा में आप बात कैसे कह सकते हैं।

उत्तर का तीसरा अथवा अंतिम प्रारूप तैयार कीजिए और देखिए कि आपने सारी आवश्यक बातें अपेक्षित शब्द-सीमा में प्रस्तुत कर दी हैं अथवा नहीं।

(घ) **व्याख्या** : सामाजिक विज्ञान लेखन में व्याख्या की प्रक्रिया का स्थान महत्वपूर्ण है। आपकी योजना तथा वस्तु-चयन में भी व्याख्या की झलक दिखाई देगी। "संभवतः, शायद, क्योंकि, इसलिए" आदि शब्दों के साथ आपके वक्तव्य व्याख्या की झलक देते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके उत्तर में प्रस्तुत तथ्य आपके वक्तव्य का समर्थन करते हैं अथवा नहीं।

**टिप्पणी** : अगर आपके पास समय सीमित हो तो :

- 1) पहला प्रारूप तैयार करें, यह जाँच लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, शब्द-सीमा आदि पर ध्यान दें; और
- 2) अंतिम प्रारूप तैयार करें।

आशा है, अब आप उत्तर लिखने के लिए तैयार होंगे।

बी.एस.एच.एफ.—101 : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम  
अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.)

पाठ्यक्रम कोड : बी.एस.एच.एफ.—101  
सत्रीय कार्य कोड : बी.एस.एच.एफ.—101/ए.एस.टी/2018—2019  
पूर्णांक : 100

नोट : प्रत्येक भाग में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए।

डी.सी.क्यू.: निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 500—500 शब्दों में उत्तर दीजिए।

1. हम समाज का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? चर्चा कीजिए। 20
2. क्या मौलिक अधिकार, हमारे संविधान का आधार हैं? चर्चा कीजिए। 20
3. भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में शांति और संघर्ष के स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है? 20
4. 'मानव सुरक्षा' शब्द से आप क्या समझते हैं? 20

एम.सी.क्यू.: निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के लगभग 250—250 शब्दों में उत्तर दीजिए।

5. हमारे संविधान में प्रयुक्त 'निदेशक सिद्धांत' शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए। 12
6. 'नवजागरण' शब्द से आप क्या समझते हैं? 12
7. 'सामाजिक संरचना' शब्द से आप क्या समझते हैं? 12
8. क्या भूमंडलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है? टिप्पणी कीजिए। 12
9. कला के एक रूप में भरतनाट्यम के स्वरूप की चर्चा कीजिए। 12
10. अनुसूचित जातियाँ क्या हैं? 12
11. परिवार के कार्य क्या हैं? संक्षेप में चर्चा कीजिए। 12
12. चिंतक प्राणी के रूप में मानव के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12

एस.सी.क्यू.: निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 100—100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

13. (i) लौह युग  
(ii) वि-अधिसूचित जनजातियाँ  
(iii) सामाजिक परिवर्तन  
(iv) मिश्रित अर्थव्यवस्था